

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 24 अप्रैल, 2019

विषय- उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार हेतु विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9452/R.97/सततीकरण/प्रशासन/2019 दिनांक 20.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार हेतु क्रमशः शासनादेश संख्या-642 दिनांक 06.08.2005; संख्या-131 दिनांक 13.11.2006; संख्या-115 दिनांक 26.06.2008; संख्या-158 दिनांक 27.06.2011 एवं संख्या-722 दिनांक 22.11.2016 द्वारा सृजित शैक्षिक/शिक्षणोत्तर संवर्ग में अस्थाई/आउटसोर्स के कुल 108 पदों की दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 29.02.2020 तक निरन्तरता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-131 दिनांक 13.11.2006; संख्या-115 दिनांक 26.06.2008 एवं संख्या-158 दिनांक 27.06.2011 द्वारा सृजित अस्थाई/आउटसोर्स के कुल 105 पदों में से 104 पदों (पूर्व में आउटसोर्स के माध्यम से सृजित अनुसंधान एवं प्रकाशन अधिकारी के 01 पद को शासनादेश संख्या-722 दिनांक 22.11.2016 द्वारा समाप्त करते हुए सृजित शोध अधिकारी के 01 पद को छोड़कर) की दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 29.02.2020 तक निरन्तरता बनाये रखने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं कि रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दुधर बौड़ाई)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- 338 (1)/XLII-1/2019-06(04)2010 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ देहरादून।
2. कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
3. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अरुण कुमार)

अनु सचिव।